



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण 1946 (श10)

(सं0 पटना 1110) पटना, सोमवार, 25 नवम्बर 2024

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

23 नवम्बर 2024

सं० सं०का०-1/वि०मं०(महानुभाव)-08-12/2024-1012—अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् के ज्ञापक-1881(1)/वि०प०, दिनांक-15.11.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय जनता दल, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानन्द सिंह ने श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय स०वि०प० को बिहार विधान परिषद् में मुख्य सचेतक, विरोधी दल के किये गये मनोनयन को माननीय सभापति बिहार विधान परिषद् द्वारा दिनांक-15.11.2024 के प्रभाव से मान्यता प्रदान की गयी है, जिसे बिहार विधान परिषद् की अधिसूचना संख्या-1880(1)/वि०प०, दिनांक-15.11.2024 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, 2006 (अद्यतन संशोधित) के नियम-3(ख) के प्रावधानों के तहत श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, को बिहार विधान परिषद् सचिवालय की अधिसूचना के आलोक में दिनांक-15.11.2024 के प्रभाव से सरकार के राज्य मंत्री के समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधायें अनुमान्य होंगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1110-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>